

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 1982/वैशाख 3, 1904
No. 76] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 1982/VAISAKHA 3, 1904

एक भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

व्याणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 17-ई.टी.सी. (पो. एम)/82

विषय :—1982-83 वर्ष के दौरान अरुण्टी के तेल की निर्यात नीति ।

मि. सं. 38/65/81-ई. 2.—आयात निर्यात नीति पुस्तक 1982-83 (जिल्द 2)
के नीति विवरण के पृष्ठ 18 की क्रम सं. बी 31 (3) और पृष्ठ 95 की क्रम सं. 4ए

की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार अरण्डो के तेल का निर्यात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के माध्यम से सरणीबद्ध है ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि जब भी अरण्डो के तेल के निर्यात की उपर्युक्त सरणीबद्ध नीति भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के माध्यम से लागू रहेगी, गुजरात राज्य निर्यात निगम लि. और आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लि. को भी सीधे ही सामान्य मुद्रा क्षेत्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के लिए अरण्डो के तेल के निर्यात की अनुमति दी जाएगी :—

- (1) गुजरात राज्य निर्यात निगम और आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लि. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. के पास संविदा पंजीकृत करेंगे ।
- (2) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. द्वारा संविदा के 1/4% (चौथाई प्रतिशत) जहाज पर निशुल्क मूल्य का पंजीकरण रज वसूल किया जाएगा ।

भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. सभी क्षेत्रों को अरण्डो तेल का निर्यात और निर्यातों का अवशोषण करता रहेगा ।

मनि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd April, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 17-ETC(PN)/82

Subject.—Export Policy of Castor Oil during 1982-83.

File No. 38/65/81-EH.—Attention is invited to S. No. B 31(iii) at page 16 of Policy Statement and S. No. 4A on page 95 of Import and Export Policy Book, 1982-83 (Vol. II), according to which export of Castor Oil is canalised through the State Trading Corporation of India Ltd.

2. It has now been decided that while the above canalisation policy for export of Castor Oil through the State Trading Corporation will continue to be operative, the Gujarat State Export Corporation Ltd., and the Andhra Pradesh State Trading Corporation Ltd., will also be allowed to export Castor Oil direct to General Currency Areas only upto 31st March, 1983, subject to the following conditions :—

- (i) Gujarat State Export Corporation; and Andhra Pradesh State Trading

Corporation Ltd. will register export contracts with the State Trading Corporation of India Ltd.

- (ii) Registration charges of 1/4 per cent (quarter per cent) of f.o.b. value of the contracts will be levied by the State Trading Corporation of India Ltd.

The State Trading Corporation of India Ltd. will continue to export Castor Oil to all areas and monitor the exports.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller,

Imports & Exports.

